

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 1977/पौष 14, 1898  
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1977/PAUSA 14, 1898

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 4th January 1977*

**S.O. 10(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (bb) of sub-section (1) of section 4 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), the Central Government hereby appoints Shri V V Vaze, Chairman of the Foreign Exchange Regulation Appellate Board in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, as a member of the Bar Council of India, with effect from the 9th of December, 1976

[No. F.8(13)/76-IC]

P G GOKHALE, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1977

का० सा० 10(अ).—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (खख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में विदेशी मुद्रा विनिर्धन अपील बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी० वी० वझे को 9 दिसम्बर, 1976 से भारत की बार काउंसिल का सदस्य नियुक्त करती है।

[स० एफ० 8(13)/76-आई० सी०]

पी० जी० सोहले, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977